

Ref. No.: SCML/2022-23/97

Date: 19/03/2023

To

BSE Limited Corporate Relations Department P.J. Towers, Dalal Street Mumbai 400 001

Scrip Code: 511700

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Newspaper advertisement of Corrigendum to Notice of Extra Ordinary General Meeting of Standard Capital Markets Limited dated February 26, 2023 and dispatched to the shareholders on March 04, 2023 pursuant to regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulation 2015

This is with reference to the Notice of Extra-Ordinary General Meeting dated February 26, 2023. In this regard, please find enclosed a copy of the corrigendum to Notice of Extra-Ordinary Meeting published by the Company in the Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on 19th March 2023.

This information will also be available on the website of the Company.

You are requested to take the above on record.

Thanking You, Yours Sincerely,

For Standard Capital Markets Limited

Ram Gopal Jindal **Managing Director** Din No. 06583160

Encl: As Above



FE SUNDAY

M/S TYBROS (INDIA) TOURS PRIVATE LIMITED (UNDER LIQUIDATION, IBC, 2016)

Liquidator's Regd. Address: E-205, Greater Kailash Part-II, New Delhi- 110048 Correspondence Address: 904, GF, Sector- 7C, Faridabad-121006 Contact: 91 - 9319703648, 0129 - 4881648, E-mail liqtybrosindia2022@gmail.com

E-AUCTION NOTICE Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and regulation there under, that the assets stated in Table below, will be assigned by E-Auction through the service provider M/s Linkstar Infosys Private imited via website http://www.eauctions.co.in. Friday, 31.03.2023 3.00 PM to 05:00 PM **Date and Time of Auction**

(with unlimited extension of 5 Minutes each). Last Date for Submission of EMD Tuesday, 28.03.2023 before 05:00 PM Issue of Log in Credential to the Bidders Thursday, 30.03.2023 Inspection Date & Time Contact 20.03.2023 to 25.03.2023 (From 2.30 PM to Number for inspection 5.30 PM) M No.: 9319703648, 0129-4881648

EMD Lot Asset Description Reserve Price ncremental (10%)Value Rs. Rs. ,98,00,000 2.00,000 Not Current Assets -Trade 19,80,000 Readily Receivables, ShortTerm Loans Realisabl & advances, Other Current Assets (NRRA) Application submitted before NCLT Court of Transaction Audit U/s 43 of IBC, 2016 Application submitted before NCLT Court of Transaction Audit U/s 66 of IBC, 2016

The EMD shall be payable by interested bidders through NEFT/RTGS/Demand Draft on or before 5.00 PM date 28.03.2023 in an account of "M/S TYBROS (INDIA) TOURS PRIVATE LIMITED" having Bank Account in Punjab National Bank, Faridabad Account No: 0936102100000246 and IFSC Code PUNB0093610 For detailed terms & conditions of E-auction, refer TENDER DOCUMENT including List of NRRA are available on http://www.eauctions.co.in. For any query regarding E-Auction, contact Mr. Dixit Prajapati (M: 7874138237) on admin@eauctions.co.in or Liquidator E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" AND NO RECOURSE BASIS".

SUNIL KUMAR AGRAWAL Place: Faridabad Liquidator Date:18.03.2023 IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018/10222



STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED CIN: L74899DL1987PLC027057 Regd. Off: G-17, Krishna Apra, Business Square,

Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi 110034

E-mail: stancap.delhi@gmail.com

Website: www.stancap.co.in, Phone: 9871652224 Corrigendum to Notice of Extra ordinary General meeting dated 26th February 2023 dispatched on the 04th March 2023.

Dear Member (Stakeholder)

Standard Capital Markets limited ("Company") had issued the Notice of EGM dated 26th February 2023 for seeking approval of members as per agenda item mentioned in the said Notice of EGM. The Notice of EGM has already been circulated to all the shareholder of the company on

the 04th March 2023 in due compliance with the provision of the Companies Act 2013. The Company through this communication wishes to bring to the notice of the Shareholders, following changes in the said Notice of EGM: Changes to Point no. VI of the Explanatory Statement to Item No. 1 of Notice of EGM pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013":

VI. The identification of the Natural person who are the ultimate beneficial owner of the securities proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allotee.

S.no Name of Proposed Allotee Name of beneficial owner **Gaurav Aggarwal** Mr. Gaurav Aggarwal (Karta of the HUF) as a ultimate Beneficial (HUF) owner of the HUF.

This corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the Notice of the Extra ordinary General Meeting. Further, in the notice wherever Gaurav Kumar Aggarwal (HUF) is mentioned, Mr. Gaurav Aggarwal (Karta of the HUF) construed to be the ultimate beneficial owner of HUF.

This corrigendum to the Notice of the Extra Ordinary General Meeting will be hosted on the website of the Company, viz., www.stancap.co.in besides being communicated to the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed.

All other particulars and details remain unchanged. This Corrigendum to the EGM Notice shall form an integral part of the EGM Notice which has already been circulated to shareholders of the Company and on and from the date hereof, the EGM Notice shall always be read in conjunction with this Corrigendum. This Corrigendum is being made available on the website of the stock exchanges i.e.,

BSE at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.stancap.co.in Thanking you

Yours Faithfully For and on behalf of Standard Capital Market Limited

Dated: 18/03/2023

Ram Gopal Jindal **Managing Director** DIN: 06583160

SALE NOTICE

AUTOMOTIVE COACHES AND COMPONENTS LIMITED (In Liquidation) Reg. Off.: C1 & D6, SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi Thiruvallur 601201, Tamilnadu

E- Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of Auction: Monday 3rd April 2023 at 3 pm to 5 pm (With unlimited extension of 5 minutes each) Sale of Land & Building and Vehicles forming part of Liquidation Estate will be done by the

Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Chennal Bench through the e-auction platform WWW.BANKAUCTIONS.IN Description of Assets:

Asset A - Vehicles

- TN 18 AY 7160 (Prime Mover) (Ashok Leyland Tusker Super), Year 2006 TN 18 AY 7160 (Trailor) (Ashok Leyland Tusker Super), Year 2006.
- TN 20 AQ 2112 (Ashok Leyland Open Truck), Year 2007

Asset B – Leasehold Land & Building at Gummidipoondi

Land measuring 21.53 acres with buildings in Plot No. C-1, D6 & F-97, SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi 601201, Thiruvallur District, Tamilnadu within the village limits of Pappankuppam & Peddikuppam Taluk & Sub registration District of Gummidipoondi in

Chengalpattu Revenue District. Asset C: Freehold Land & Building at Puducherry

Land measuring 11.03 Acres with buildings in S.Nos Nos. 113/15, 115/3&4, 115/5, 110/1A, 110/2, 110/1B,112/10, (114/1 to 114/4), 107/1B, 107/3, 107/4,115/6A, in Plot No. 17 to 19, at Villianur Commune, Sedarapet Village, Puducherry - 605111.

Asset	Reserve Price in Rs.	Earnest Money Amount in Rs.
BATCH 1	K K	
Asset A- Vehicles	14,50,000/-	1,45,000/-
BATCH 2	S Manuelle -	. WOOMANDOOL
Asset B [Land and building at Gummidipoondi]	37,51,00,000/-	3,75,10,000/-
BATCH 3		
Asset C [Land and building at Puducherry	12,22,00,000/-	1,22,20,000/-

Terms and Condition of the E-Auction are as under:

- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider M/s. 4CLOSURE.
- 2. The auction comprises of 3 batches
- 3. The EMD shall be payable through DD/NEFT/RTGS in the bank account of AUTOMOTIVE COACHES AND COMPONENTS LIMITED-IN LIQUIDATION - A/c. No. 120002073834, Canara Bank, Madipakkam Branch, Chennai and IFSC Code: CNRB0002951. Bids shall be submitted through online mode only in the format prescribed. The bid form
- can be downloaded from the website of WWW.BANKAUCTIONS.IN Last date and time for submission of EMD & Tender documents is 1st April 2023 upto
- 6. The date and time of e-Auction is Monday the 3rd April 2023 between 3.00 p.m and
- 7. The intended bidder who has deposited EMD and requires assistance in creating login ID and password may contact the liquidator office on phone +91 6383818097 through email at acclinliquidation@gmail.com and for technical support, you can contact Mr.
- Bharathi Raju @ 08142000735/66. The EMD amount of unsuccessful Bidders will be refunded.
- 9. The bidder who submits highest offer on closure of online auction shall be declared successful bidder subject to approval by the Liquidator. The liquidator reserves her rights to reject any or all of the offers or accept offer for one or more properties received without assigning any reasons whatsoever at any stage.
- Upon confirmation of sale, the successful bidder shall deposit balance sale consideration within 90 days of the date of e-auction. Payment made after 30 days shall attract interest @ 12%. However this sale shall be cancelled if the payment is not received within 90 days as per the provisions of Sub Regulation 12 of Regulation 1 of Schedule I of IBBI (Liquidation Process) Regulations 2016 as amended from time to
- 11. The advertisement will be valid for 90 days from the date of advertisement. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment contacting Mrs.E.Santhanalakshmi (+91 6383818097)

19/03/2023 E.SANTHANALAKSHMI, Liquidator Regn No: IBBI/002/IP-N00831/2019-2020/12661



WHEELS INDIA LIMITED

CIN: L35921TN1960PLC004175

Registered Office; No. 21, Patullos Road, Chennai - 600 002 Ph.No. 044 2852 2745 e-mail ID: investorservices@wheelsindia.com Website: www.wheelsindia.com

ACCEPTANCE AND RENEWAL OF DEPOSITS

DEPOSIT SCHEMES (UNSECURED)

For Public and Shareholders

(Circular in the Form of Advertisement inviting deposits from Public and Shareholders pursuant to Section 73(2)(a) and Section 76 of the Companies Act 2013 and rule 4(1) and 4(2) of the Companies (Acceptance of Denosits) Rules 2014)

For Deposit purpose Help line Phone Number 044-28522745

ille Companies (Accept	iance of Deposits) Rule:	5, 2014).					OTT EDUEET TO
SCHEME A - FIXED DEPOSIT				sc	HEME B - CUMULAT	IVE DEPOSIT	
Period of Deposit	Minimum Amount of Deposit	Rate of Interest per annum	Period	Minimum Amount of Deposit	Maturity value for Rs. 21,000/- *	Maturity value of every additional Rs. 1000/- *	Annual yield
12 Months	Rs. 21,000/-	7.6%	12 Months	Rs. 21,000/-	22638	1078	7.80
24 Months	Rs. 21,000/-	8.0%	24 Months	Rs. 21,000/-	24612	1172	8.60
36 Months	Rs. 21,000/-	8.3%	36 Months	Rs. 21,000/-	26869	1279	9.30

Interest on deposits under Scheme "A" will be paid quarterly, on 31" March, "Interest on cumulative deposits is subject to deduction of tax at source on 31" March and on maturity as applicable. The Company will issue tax deduction certificate to holders of 30" June, 30" September and 31" December. such deposits as at 31" March and on maturity. Interest accrued after deduction of tax alone is eligible for calculation of interest for the subsequent periods and the amount payable on maturity will stand reduced accordingly.

1. GENERAL INFORMATION

- : WHEELS INDIA LIMITED, CIN: L35921TN1960PLC004175, No.21, Patullos Road, a. Name, address, website and other contact details of the Company Chennai - 600 002. Phone: 044-28522745
- Website: www.wheelsindia.com
- b. Date of Incorporation of the Company: June 13, 1960
- c. Business carried on by the Company : Business carried on by the Company and its subsidiaries, with the details Manufacture of wheels for Commercial Vehicles, Passenger Cars, Utility Vehicles, Tractors and Defence requirements, fitment of Air Suspension System for of branches or units, if any Commercial Vehicles and steel structural components for energy sector. The manufacturing locations as of March 31, 2022 are given below:

Padi: M.T.H. Road, Padi, Chennai - 600 050, Tamilnadu. Rampur: No.22, KM Rampur Tanda Road, Post - Tanda Badli, District - Rampur, Uttar Pradesh - 244 925.

Pune: Plot No. C-1, MIDC, Ranjangaon Ganpati, Karegaon Village, Shirur Taluk, Pune District, Maharashtra - 412 220. Sriperumbudur: Singaperumal Koil Road, Pondur Village, Sriperumbudur,

Kancheepuram District - 602105, Tamilnadu Pantnagar : Plot No.56, Sector 11, I.I.E, Pantnagar, Rudrapur, Udham Singh Nagar,

Uttarakhand - 263153 Thodukadu: Survey No. 13/2 & 13/3 Arakonam Road, Namachivayapuram, Thodukadu Village & Post, Tiruvallur Taluk & District, Tamil Nadu - 602 105. Mambakkam: Survey No. 281, Plot No. K-18/2, SIPCOT Industrial Park, Phase - 2,

Mambakkam Village, Sriperumbudur - 602105. Pukkathurai: Survey No. 147/2B & 147/3, GST Road, Pukkathurai Village, Maduranthagam Taluk, Chengalpet District, Pincode - 603308 Thervoykandigai: Plot No. A-6/2, Part C2, C3, C5 & C6, SIPCOT Industrial Park, Gummidipoondi Taluk, Thervoykandigai, Thiruvallur, Tamil Nadu – 601 202. Irungattukottai: No. 102, Sumantherabedu Village, Irungattukotai,

The Company has one Subsidiary viz., WIL Car Wheels Limited. It is engaged in **Business Carried by Subsidiary** manufacture and sale of Passenger Cars Steel Wheel business. Its manufacturing

Tamil Nadu - 602 117.

locations as at March 31, 2022 are as follows: Padi: Padi, Chennai - 600 050, Tamilnadu Bawal ; Plot no 11-18, Sector - 07, HSIDC Bawal, District - Rewari - 123501. Haryana Vanod : Survey No. 91/1, Village : Vanod, Becharaji-Dasada Road, Near Becharaji,

Taluka : Dasada, Dist : Surendranagar, Gujarat - 382750 d. Brief particulars of the management : The Company is managed by its Chairman subject to the superintendence, direction and control of the Board of Directors.

Name & DIN of the Director	Address	Occupation
Mr. S. Ram Chairman DIN: 00018309	57 (Old No.29), Prithvi Avenue, Chennai - 600018	Company Director
Mr. S. Viji DIN: 00139043	71, Poes Garden, Chennai - 600086	Company Director
Mr. Srivats Ram Managing Director DIN: 00063415	57 (Old No.29), Prithvi Avenue, Chennai - 600018	Company Director
Mr. S. Prasad DIN: 00063667	Flat No D1, Ashok Prithvi, Old No.87, New No.41, 4" Street, Abhiramapuram, Chennai - 600018.	Chartered Accountant
Mr. Aroon Raman DIN: 00201205	403 Olympus – I, Prestige Acropolis Apartment, Hosur Road, Koramangala, Bangalore - 560029.	Company Director
Mr. R. Raghuttama Rao DIN: 00146230	3 Lavanya Vilas, 20 Raghaviah Road, T Nagar, Chennai - 600017	Company Director
Ms. Sumithra Gomatam DIN: 07262602	Old No 6A, New No. 13/1 D Silva Road, Mylapore, Chennai - 600004,	Company Director
Mr. Rishikesha T Krishnan DIN: 00064067	G – 501, Nagarjuna Greenridge Apartments, 19" Main, 27" Cross, HSR Layout, Sector 2, Bengaluru – 560102.	Company Director

of the Company

Both the classes of deposit (Fixed/Cumulative) being Unsecured in nature but the Company has proven track record in servicing the TOTAL depositors till date, without any defaults either in repayment of deposit or payment of interest. Pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, the Company has deposited twenty per cent of the amount of its deposit maturing during a financial year in deposit repayment reserve account maintained with a scheduled bank as prescribed by the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

Credit Rating:-[ICRA] A- (Stable) (Pronounced ICRA AMinus - Stable), g. Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of :

debentures and interest thereon Not Applicable

- loan from any bank or financial institution and interest thereon.
- 2. PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME Date of passing of board resolution: January 31, 2023
- b. Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits: The Shareholders at the Annual General Meeting held on September 08, 2014 approved the same.
- c. Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured: UNSECURED DEPOSITS
- d. Amount which the Company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made thereunder, and the aggregate of 5. DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT

deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the Circular or a. the Company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or advertisement and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within the next twelve months: (Rs. in Crores)

SI NO	Particulars Limit up to which deposit can be accepted		as on March 31, 2022
1	From Public : (25% of the aggregate paid up capital and free Reserves)	169.76	148.74
2	From its shareholders : (10% of the aggregate paid up capital and free Reserves)	67.90	58.30
	Total	237.66	207.04

Rs, 207.04 Crores. The amount held as on January 31, 2023 is Rs, 236.94 Crores. The amount proposed to be raised: within the limits as prescribed under the Act and the Rules. The aggregate of deposits repayable within the next twelve months as on the last day of the immediately preceding financial year,

i.e. March 31, 2022 Rs. 83.88 Crores which includes deposit matured and unclaimed amounting to Rs. 3.48 Crores. Terms of raising of deposits: Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment:

MAIN TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE FOR BOTH SCHEMES

Minimum Amount of Deposit :: Rs. 21,000/- and thereafter in multiples of Rs. 1,000/- only

per Depositor Term of Deposit : Deposit will be accepted for the period of 12/24/36 months. Rate of Interest : 7.6% for 12 Months

8.0% for 24 Months

8.3% for 36 Months The Company reserves the right to after / amend / modify the rate of interest as the case may be from time to time. The acceptance / renewal of deposits is subject to the rules and regulations

contained in the application form. : Interest on Deposit under scheme 'A' will be Payable every quarter on 30" June, 30" September. Date : 31.01.2023 Interest payable 31" December, 31" March and on maturity. In respect of deposits accepted under Scheme B, NOTE

interest will be compounded every calendar quarter and will be paid along with deposits on maturity. Deposits will be repayable on maturity. Pre-Matured Withdrawals are generally not permitted. Repayment of principal

and subject to the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014.

: Remittance for deposits will be accepted only by A/c payee CHEQUES/DEMAND DRAFTS payable Mode of Payment at Chennai at par and through NEFT/RTGS. Demand Draft charges are not deductible from the principal. Outstation cheques will not be accepted. No deposit will be accepted by way of cash. : Renewal will be considered on a fresh application accompanied with the duly discharged Renewal of deposit deposit receipt. The duly filled in application form along with the necessary remittance should be sent to the company's Registered Office

at No. 21, Patullos Road, Chennai - 600 002 Detailed terms and conditions subject to which deposits are accepted by the Company are set out in the prescribed

application forms for such deposit Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the circular or advertisement

The Company has been operating these schemes for its depositors. This circular is being issued to continue to accept / renew deposits during the financial year 2022-23. The revision in the rate of interest will be with effect from March 20, 2023. The time period which this circular is valid is until the expiry of six months from the date of closure of the financial year 2022-23 or until the date of the next Annual General Meeting whichever is earlier.

g. Reasons or objects of raising the deposits:

- For meeting long term requirement of the company and to augment the long term resources. h. Credit rating obtained; Name of the Credit Rating Agencies, Rating obtained, Meaning and Date on which rating was obtained; Credit Rating: [ICRA] A - dated January 27, 2023. The outlook on the rating is "Stable".
- Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any:

NOTAPPLICABLE as the deposits are unsecured

 Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interest of other persons : The Directors, Promoters, Key Managerial Personnel does not have any interest which is different from the interest of other persons.

DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS AS ON 31⁸¹ MAR 2022

- a. Amount Outstanding Rs. 207.22 crores Date of acceptance Accepted on different dates Rs. 18.19 crores Rate of interest At different Rates
- 4,092 Numbers Total number of depositors Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of depositors, amount and duration of default involved :
- g. Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits:

(Cash profit after tax plus interest paid or interest paid)

4. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY a. Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of

24 02 2024

issue of circular or advertisement: (Rs. in Crores)

Profit / (Loss) after tax For the year Ended Profit / (Loss) before tax 31.03.2020 44.60 54.11 31.03.2021 9.72 6.75 31.03.2022 106.51 79.79 b. Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years

For the year Ended Dividend % Dividend Declared (Equity) Interest Coverage (Rs.In Crores) Ratio 31.03.2020

PARTICULARS	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021	(Rs. in Crore As at March 31, 2020
			(Rs. in Crore
 A summary of the financial pos of circular or advertisement : 	sition of the company as in the thr	ee audited balance sheets imme	8770 8000
31.03.2022	19.97	83	3.77
04.00.0000	70'20'E LE	The state of the s	

597.47 Shareholders' Funds 675.11 Non-current liabilities 310.71 375.50 295.86 Current liabilities 1743.36 1242.98 868.23 2729.18 2217.80 1761.56 **ASSETS** 910.50 867.21 830.01 Non-current assets 1818.68 1350.59 Current assets 931.55 2729.18 2217.80 1761.56

122.17 (27.06)51.52

d. Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement.

PARTICULARS 31.03.2022 31.03.2020 31.03.2021 (16.66)137.55 158,91 Cash Flow from Operating Activities (115.57)(109.73)(198.83)Cash Flow from Investing Activities Cash Flow from Financing Activities (10.06)11.60 Net increase in cash and cash equivalents 0.76 e. Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the company :

payment of interest on such deposits and there has been no instances where a default has occurred and the company made good the default and a period of five years had lapsed since the date of making good the default; the board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the Company and that they are of

the opinion that having regard to the estimated future financial position of the Company, the Company will be able to meet its liabilities as and when they become due and that the Company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement; c. the company has complied with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

 d. the compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government; the company has accepted public deposits under the relevant provisions of the Companies Act, 1956 and rules made under that

New Delhi

act (hereinafter known as "earlier Deposits") and has been repaying such deposit and interest thereon in accordance with such provisions and will continue to repay such deposit and interest due thereon on due dates for the remaining period of such deposit in accordance with the terms and conditions and period of such earlier deposit and in compliance with the requirements under the Companies Act., 2013 and rules made there under;

in case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty; the deposits shall be used only for the purposes indicated in the Circular or circular in the form of advertisement.

h. the deposits accepted by the Company are unsecured and rank pari-passu with other unsecured liabilities of the Company.

It is to be distinctly understood that filing of circular or circular in the Form of advertisement with the Registrar should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by the Registrar or Central Government. The Registrar or Central Government does not take any responsibility either for the financial soundness of any deposit scheme for which the deposit is being accepted or invited or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the circular or circular in the Form of advertisement. The depositors should exercise due diligence before investing in the deposits scheme.

For Rules and Regulations, Application Forms and further particulars, please contact Our Authorised Service Provider M/s. Sundaram Finance Holdings Limited at No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002, or our Registered Office at No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002.

> By order of the Board For WHEELS INDIA LIMITED K V Lakshmi Company Secretary

(Rs. in Crores)

Place: Chennai

The text of this advertisement has been approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on January 31, 2023. A copy of this advertisement signed by a majority of the Directors on the Board of Directors of the Company, has However, under special circumstances they may be considered at the discretion of the Company been filed with the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu as required by the Companies (Acceptance of Deposits) Rules. 2014 as amended. The advertisement is issued on the authority and in the name of Board of Directors of the Company.
















स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1987PLC027057 पंजीकृत कार्यालय: जी-17, कृष्णा अपरा, बिजनेस स्क्वायर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034 इं-मेलः stancap.delhi@gmail.com

वेबसाइट: www.stancap.co.in, फोन: 9871652224 दिनांक 26 फरवरी, 2023 की असाधारण आम बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र 04 मार्च, 2023 को भेजा गया।

प्रिय सदस्य (हितधारक),

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केंट्स लिमिटेड ('कंपनी') ने ईजीएम के उक्त नोटिस में उल्लिखित एजेंडा आइटम के अनुसार सदस्यों की मंजूरी लेने के लिए 26 फरवरी 2023 को ईजीएम का नोटिस जारी किया था।

ईजीएम का नोटिस कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के उचित अनुपालन में 04 मार्च 2023 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

कंपनी इस संचार के माध्यम से शेयरधारकों के ध्यान में लाना चाहती है, ईजीएम के उक्त नोटिस में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में ईजीएम की सूचना के मद संख्या 1 में व्याख्यात्मक विवरण के बिंद संख्या VI में परिवर्तन":

VI. प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान जो आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित प्रतिभृतियों के अंतिम लाभकारी स्वामी हैं और / या जो अंततः प्रस्तावित आवंटी को नियंत्रित करते हैं।

क्रम संख्या	प्रस्तावित आवंटी का नाम	लाभकारी मालिक का नाम
9	गौरव अग्रवाल (एचयूएफ)	श्री गौरव अग्रवाल (एचयूएफ के कर्ता) एचयूएफ के अंतिम लाभकारी मालिक के रूप में।

इस शुद्धिपत्र को अतिरिक्त साधारण आम बैठक की सूचना के साथ और संयोजन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, नोटिस में जहां भी गौरव कुमार अग्रवाल (एचयूएफ) का उल्लेख किया गया है, श्री गौरव अग्रवाल (एचयूएफ के कर्ता) को एचयूएफ का अंतिम लाभकारी मालिक माना गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की सूचना में यह शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा अर्थात www.stancap.co.in स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के इक्विटी शेयर

अन्य सभी विवरण और विवरण अपरिवर्तित रहते हैं। ईजीएम नोटिस का यह शुद्धिपत्र ईजीएम नोटिस का एक अभिन्न अंग होगा जिसे पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को परिचालित किया जा चुका है और इसकी तारीख से ईजीएम नोटिस हमेशा इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा।

यह शुद्धिपत्र स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.stancap.co.in पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

> आपका ईमानदारी से स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से एसडी-

तिथि: 18/03/2023 राम गोपाल जिंदल प्रबंध निदेशक डीआईएनरू 06583160

दिनांक : 19.03.2023, स्थान : गाजियाबाद



जॉय टॉवर, सी 20, दूसरी मंजिल, 1/1ए, सी ब्लॉक, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301 आंचलिक कार्यालय प्रधान कार्यालयः लोकमंगल,1501,शिवाजीनगर, पुणे–5

आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) नियम-8(1)

तबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनंगठन एवं प्रतिभृति–हित–का प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सहपठित प्रतिभृहित हित (प्रवर्तन नेयम 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित दिनांक को मांग सूचना पत्र को जारी केया जिसमें निनवर्णित ऋणी एवं जमानतदार को नोटिस में निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अनय खर्चो सहित नोटिस प्राप्ति की दिनोंक से 60 दिनों की मयावधि में भूगतान करने हेत् निर्देशित किया गया था। यह सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था।

ऋणी द्वारा राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी एवं आमजनता को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट की घारा 13 (4) सहपठित उक्त कथि नेयम के नियम 8 के अधीन निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** निम्नवर्णित दिनांक को ले लिया गया है। ऋणी एवं जमानतदार व वेशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई ो व्यवहार निम्न वर्णित राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हरिद्वार शास्त्रा** के निर्मित प्रभार के अध्यवीन होगां।

समार	कर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित प	रिसंपत्तियों एवज में उपलब्ध समय की ओर	ध्यान आकर्षित रि	केया जाता है।
क्र0 सं0	का नाम एवं पता	बंधक रखी संपत्ति के विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि
	पता— मकान नबर 35 / 43 नई टिहरी विस्थापित क्षेत्र, ग्राम	पत्नी श्री मनोज कुमार रिहायशी मकान का साम्यिक बंधक रिथत प्लॉट नंबर 35/43, खरारा नंबर 452/13, 460/14, 485/1, टिहरी विस्थापित क्षेत्र, ग्राम रानीपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला—हरिद्वार, क्षेत्रफल 118.86 वर्ग	कब्जे नोटिस की तिथि 15.03.2023	अन्य छाव
		The state of the s		

2. 1. श्री निशांत गुप्ता पुत्र श्री दिनेश गुप्ता (ऋणकर्ता) पता-1 मकान मालिक का नामः श्री निशांत गुप्ता 17.11.2022 नं. 95 नेतवाला सैदाबाद रायसी, हरिद्वार— उत्तराखंड— 247671 🛙 पत्र श्री दिनेश गप्ता 21,60,466.00 पता-2 प्लॉट नंबर डी-152 खसरा नंबर 164 का भाग गांव नूरपुर संपत्ति का साम्यिक बंधक रियत प्लॉट ⊦ ब्याज एव<u>ं</u> पंजाहेड़ी परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला– हरिद्वार– नंबर डी–152, खसरा नंबर 164 का कब्जे नोटिस उत्तराखंड अन्य खर्च 17.11.2022 उत्तराखंड भाग गांव नूरपुर पंजाहेडी परगना-ज्वालापुर, तहसील और जिला- 15.03,2023 पता—3 मीहल्ला लाटोवाली कनखल हरिद्वार— 247671 श्रीमती सिमरन गुप्ता पत्नी श्री निशांत गुप्ता (सह—ऋणकर्ता)|हरिद्वार- उत्तराखंड, क्षेत्रफल 900 वर्ग पता—1 मकान नं. 95, नेतवाला सैदाबाद रायसी, हरिद्वार— फुट (83.64 वर्ग मीटर) सीमायै:-पूर्व- प्लॉट डी-147, पश्चिम- रास्ता पता—2 प्लॉट नंबर डी—152 खसरा नंबर 164 का भाग गांव नूरपुर 20 फीट बीडा, उत्तर— प्लॉट डी—153, पंजाहेड़ी परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार-उत्तराखंड दक्षिण- प्लॉट डी-151

श्रीमती सोनी सिंह पत्नी श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह (पुत्री श्री सत्यवीर मालिक का नाम: श्रीमती सोनी सिंह 18.11.2022 सिंह) (ऋणकर्ता) प्रोपः गैसर्स साई ब्रोसरी स्टोर, पताः दुकान नंबर पत्नी श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह (पुत्री 18,43,323.55 बी-11, बालाजी कॉम्प्लेक्स- बैंक ऑफ महाराष्ट के सामनें, रानीपुर श्री सत्यवीर सिंह) - ब्याज एवं साम्यिक बंधक खसरा नं. 413 / 3 एम. कब्जे नो दिस मोड, हरिद्वार, उत्तराखंड अन्य खर्च पताः फ्लैट नंबर के-408, आरोग्यम निवास, क्रिस्टल वर्ल्ड के पास, आई. का भाग स्थित मीजा गणेशपुर, 18.11.2022 बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड– 249402 हदूद नगर निगम रुडकी के भीतर 16.03.2023 पताः मकान नं बी-56 नासाखस्त्र वाटिका भुमानन्द अस्पताल के पीछे. क्षेत्रफल यानी 136.617 वर्ग मीटर हरिद्वार, उत्तराखंड –249402 सीमाये:- उत्तरः रास्ता 15 फीट चौड़ा,

श्री विशाल पुत्र श्री संजीव कुमार (गारंटर) पताः मकान नंबर 268, पूर्वः दिनेश का मकान, पश्चिमः मंदिर, देवीपुरा, नयागांव, सीतापुर, ज्वालापुर, हरिद्वार— उत्तराखंड— 249407 दक्षिण: जोहड़ दिनांक-18.03.2023 स्थान– हरिद्वार

Indian Bank इंडियन बेंक △ इलाहाबाद

ZONAL OFFICE PALM ROAD NEAR RESERVE BANK OF INDIA CIVIL LINES NAGPUR-440001 E-Mail: zonagpur@indianbank.co.in, Ph. No. 0712-2521113

मांग सूचना

तारीख: 03.02.2023

सेक के तहत नोटिस। 13 (2) वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 का वर्तन

दि. **03.02.2023 मेसर्स. श्याम इंडोफॅब प्रा लि. रजि. द्वारा को पोस्ट भेजा.**

1. मेसर्स श्याम इंडोफॅब प्रा लि (ऋणकर्ता / गहानदार)

प्रधान कार्यालय पत्ताः

1212ए, चिरंजिव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नवीन दिल्ली-110019

सीएसओ 326, दुसरा मजला, सेक्टर 9, पंचकुला-134109 (हरयाना) कारखानाः मेसर्सः श्याम इंडोफॅब प्रा लि

प्लॉट टी-1, टेक्टाईल पार्क, एमआयडीसी, नंदगावपेठ, अमरावती-444901 (महाराष्ट्र)

2. श्री. संदिप गुप्ता (प्रबंधक / जमानतदार) आर / ओ एच नं. 90, सेक्टर-7, पंचकुला, 134109 (हरयाना)

3. श्री. अनुराग अग्रवाल (प्रबंधक) आर / ओ एच नं. 571, शांतीवन ग्राउंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-48, चंदिगड-160047

विषयः मैसर्स श्याम इंडोफैब प्राइवेट लिमिटेड - इंडियन बैंक नागपुर शाखा में ऋण खाते

आपने रुपये के ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है। **30,07,61,474.90 (रुपए तीस करोड़ सात लाख इकसठ हजार चार सौ चौहत्तर और नब्बे पैसे**

मात्र) और उर्वरित राशि पर **02.02.2023** से चुकौती की तारीख तक सहमत दर पर आगे ब्याज, लागत और व्यय शामिल है । बैंक ने अधिनियम के तहत 03.02.2023 को नोटिस जारी कर आपसे रुपये की बकाया राशि चुकाने का आह्वान किया। 02 / 02 / 201**3** को 30,07,61,474.90 (रूपए तीस करोड़ सात लाख इकसठ हजार चार सौ चौहत्तर और नब्बे पैसे मात्र) नोटिस आपको रजि

डाक / कूरियर / स्पीड पोस्ट / बिना तामील के वापस कर दिया गया है । आपको रुपये देने के लिए कहा जाता है। **30,07,61,474.90 (रुपये तीस करोड़ सात लाख इकसठ हजार चार सौ चौहत्तर और नब्बे पैसे मात्र)** और उर्वरित राशि पर 02 / 02 / 2023 से चुकौती की तारीख तक सहमत दर पर आगे ब्याज, लागत और व्यय शामिल है। इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर विफल होने पर बैंक नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ सुरक्षा हित के वर्तन के अपने अधिकारों का योग करने

संपत्ती का विस्तार

इंडस्ट्रियल जमीन और बिल्डिंग प्लॉट नं. टी-1 और टी-1 (पार्ट) अमरावती इंडस्ट्रियल एरिया (टेक्टाईल झोन) मौजा सावरडी यहा पर रिथत ग्रामपंचायम के क्षेत्र मे, सावरडी और एमआयडीसी ता. और जि अमरावती, प्लॉट टी-1 क्षेत्रफळ 60030.00 चौ.मी टी-1 (पार्ट) क्षेत्रफल 40000.00 चौ.मी. चतुर्सिमा उत्तर- रेमन्ड'स जमीन, दक्षिणः 45.00 मी चौडा एमआयडीसी रस्ता, पुर्वः 45.00 मी चौडा एमआयडीसी रास्ता, पश्चिमः रेमन्ड जमीन

के लिए बाध्य होगा । यह नोटिस बैंक के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य सही उपाय पर तिकूल भाव डाले बिना है ।

हायपोथेकेशन प्लान्ट और मिशनरी स्थित इंडस्ट्रियल जमीन और बिल्डिंग प्लॉट नं. टी-1 आणि टी-1 (पार्ट) अमरावती इंडस्ट्रियल एरिया (टेक्टाईल झोन) मौजा सावरडी यहा पर स्थित ग्रामपंचायत के हद्दमे एरीया सावरडी और एमआयडीसी ता और जि अमरावती.

प्राधिकृत अधिकारी

आपला विश्वासू डंडियन बँक

क्लिक्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड र्ड – नीलामी बिक्री सूचना पंजीकृत कार्यालयः अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट र्ग. २३, ५वां तल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंदर प्लेस, नई दिल्ली-110008 ''परिशिष्ट-IV-ए'' (नियम **8(6) देखें**) अचल संपत्त्यिं की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के तहत अवल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूबना एतद द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां **किलक्स हाउसिंग फार्डनेंस लिमिटेड (CLIX) (** सिक्योंड क्रेडिटर्स) को गिरवी रखी गई है। जिसका केब्जा क्लिक्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (CLIX) के अधिकृत अधिकारी सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया है, निम्नलिखित उधारकर्ताओं, गारंटीकर्ताओं से सुरक्षित लेनदारों को देय राशि की वसली के लिए. इन संपत्तियों को दिनांक 21 04 2023 को 'जहाँ है जैसा है', 'जैसा है जो है', तथा 'जो कछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। जमा किया जाने वाला आरक्षित मल्य और बयाना राशि कमशः नीचे उल्लिखित है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) का नाम व पता	संपत्तियों का विवरण और स्वामी	आरक्षित मून्य (आरपी) इंएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10% वृद्धिशील राशि	34 (4) 44 94 94	संपत्ति के ऑन-साइट निरीक्षण की तिथि व समय	और ईएमडी जमा करने की	ई-नीलामी की तिथि एवं समय प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ
1	 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्याम लाल, ब्लॉक नं. 1, मकान नं. 12, पीके रोड, निकट आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-110001, यहाँ भी: एस-46, ब्लॉक 5 प्लॉट नं. 46 डीएलएफ अंकुर विहार, नई दिल्ली, 	द्वितीय तल पर आवासीय संपत्ति,	萩, 21,52,800/-	₹.21,51,879.96	18,04,2023 से 19,04,2023 प्रात: 10 बजे	या उससे पहले	21,04,2023 प्रातः 10,30 खजे से दोपहर
- 3	यहाँ भी: जी-13, आराम बाग पहाड़ गंज, सेन्ट्रल दिल्ली-110055, यहाँ भी: मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स	छत अधिकार के. एस- ब्लॉक.	板. 2,15,300/-	20.08.2022 को +भविष्य का			
0.00000 0.0000 0.000	एंड इंडस्टी, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011, 2, सुनिता पत्नी राजेन्द्र क्सार, ब्लॉक नं. 1, मकान नं. 12, पीक रोड, निकट आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-110001, यहाँ भी: गायत्री एंटरप्राइजेज, सी-137, गली नं. 5, गंगा विहार, दिल्ली-110094, यहाँ भी: एस-46, ब्लॉक 5 प्लॉट नं. 46 डीएलएफ अंकुर विहार, नई दिल्ली, यहाँ भी: 1-झुगी, जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, होटल ताज मान सिंह, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली- 110001, 3, विनीत कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, ब्लॉक नं. 1, मकान नं. 12, पीक रोड, निकट आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-110001, यहाँ भी: एस-46, ब्लॉक 5 प्लॉट नं. 46 डीएलएफ अंकुर विहार, नई दिल्ली, यहाँ भी: एस-139/1, जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, होटल ताज मान सिंह, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली-110001, लोन अकाउंट नं (AC2019092661885) (भविष्य के ब्याज और 20,08,2022 के बाद ऋण राशि की कुल वसुली तक अर्जित शुल्क के साथ)	अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 51.09 वर्ग मीटर (प्लॉट नं. एस-46) के सभी भागा चारदीवारी: उत्तर- खुला क्षेत्र, पूर्व- 8 मीटर रोड,		ब्याज और अन्य देव व्यय	से सायं 5 बजे	https:// www. bankeauctions.com पर।	1.00 खजे

ईएमडी राशि "क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड", खाता संख्या ३४१९७५००६५३ - आईसीआईसीआई वैंक, IFSC ICIC0003419 के पक्ष में एनईएफटी / आरटीजीएस / फंड ट्रांसफर के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा अंतिम खरीद मुल्य का शेष 25% ईएमडी राशि को घटाकर, अगले कार्य दिवस तक नवीनतम रूप से क्लिक्स के ई-नीलामी खाते में आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा, जैसा कि ऊपर वर्णित है। अंतिम खरीब का शेष 75% आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से नीलामी की तारीख से 15 बिनों के भीतर उसी ई-नीलामी खाते में जमा किया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। असफल बोलीबाताओं को ईएमडी की वापसी केवल 5 कार्य दिवसों के भीतर बोली प्रपत्र में ऐसे बोलीकर्तो द्वारा उल्लिखित खाता संख्या में ही की जाएगी।

नियम व शर्ते: ई निलामी "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित की जा रही है और "ऑनुलाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी क्लिक्स के अनुमोदित सेवा प्रदाता सी 1 इंडिया लिमिटेड के माध्यम से वेब पोर्टल www.bankeauctions.com पर आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन नीलामी बिक्री की बोली दस्ताबेज, घोषणा, सामान्य नियम और शतेँ www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के शीर्षक और दावों / अधिकारों / बकाया / संपत्ति को ग्रभावित करने के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए इस संबंध में ई-निलामी विज्ञापन किसी भी प्रतिबद्धता या क्लिक्स के किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन करने के लिए नहीं समझा जाएगा। निलामी प्रक्रिया के संबंध में किसी भी सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में किसी भी विवरण के लिए कृपय श्री विनोद चौहान, (मो.) 98138 87931, ई मेल: delhi@c1india.com से संपर्क करें। संपत्ति के संबंध में किसी भी विवरण के लिए कृपया +91-7291981124 / 25 / 26 पर संपर्क करें। कृपया ध्यान दें कि अंग्रेजी औ हिंदी में प्रकाशित नीलामियों के नोटिस के बीच किसी भी विसंगति / असंगति के मामले में अंग्रेजी में प्रकाशित नोटिस की सामग्री मान्य होगी। प्राधिकत अधिकारी / सरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। बिक्री वित्तीय आस्तियों प्रतिभृतिकरण और पुनर्निमाण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सुवना

प्राधिकृत अधिकारी, विलक्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी

की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त सन्नी पुत्र रघुवीर निवासी मकान नंबर 137ए, अंबिका एन्क्लेव, निहाल विहार, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 139/19 धारा 33/38 दिल्ली एक्साइज एक्ट, थाना निहाल विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने

किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा

दिया है कि उक्त अभियुक्त सन्नी मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से

दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त सन्नी फरार हो गया है (या उक्त वारंट की

indianexpress.com I arrive at a conclusion not an assumption. Inform your opinion with detailed analysis.

♦ The Indian **EXPRESS**

JOURNALISM OF COURAGE

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 139/19 धारा 33/38 दिल्ली एक्साइज एक्ट, थाना निहाल विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त सन्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 21.04,2023 को या उससे पूर्व हाजिर हो।

महानगर दण्डाधिकारी-03, कमरा नं.292,

दि.पु./2756/बाहरी जिला/2023 दुसरी मंजिल, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

मैसर्स टायब्रोस (इंडिया) टूर्स प्राइवेट लिमिटेड परिसमापक के पंजीकृत पता: ई-205, ग्रेटर केलाश पार्ट-॥, नई दिल्ली- 110048 पत्राचार का पता: 904, जीएफ, सेक्टर- 7सी, फरीदाबाद-121006 संपर्कः 91 - 9319703648, 0129 - 4881648, ई-मेल ligtybrosindia2022@gmail.com

ई-नीलामी सचना

तद्दवारा दिवाला तथा दिवालिया संहिता 2016 और उसके अंतर्गत विनियमन के तहत आम जनता क चिंत. किया जाता है, कि वेबसाइट http://www.eauctions.co.in के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर लैकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नीचे दी गई तालिका में बताई गई संपत्ति. ई-नीलामी द्वार नीलामी की तिथि और समय शुक्रवार, 31.03.2023 दोपहर 3.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि मंगलवार दिनांक 28.03.2023 को सायं 05:00 बजे से पूर्व बोलीदाताओं को लॉग इन क्रेडेंशियल गुरुवार, 30.03.2023 जारी करना निरीक्षण के लिए दिनांक और समय तथा 20.03.2023 से 25.03.2023 (दोपहर 2.30 बजे से शाम निरीक्षण के लिए संपर्क नंबर 5.30 बजे तक) मो, नंबर: 9319703648, 0129-4881648 लॉट परिसंपत्ति विवरण ईएमडी बोली वृद्धिशील (10%) ₹. मूल्य रु. तत्काल वसुली वर्तमान संपत्ति - व्यापार प्राप्तियां. 2,00,000 1,98,00,000 19,80,000 योग्य संपत्ति अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम, अन्य चाल परिसंपत्तियां IBC, 2016 की धारा 43 के तहत लेन-देन के ऑडिट का NCLT कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया IBC, 2016 की धारा 66 के तहत

इच्छक बोलीदाताओं द्वारा **"मैसर्स टाइब्रोस (इंडिया) ट्र्स प्राइवेट लिमिटेड**" के पंजाब नेशनल बैंक करीदाबाद, खाता संख्या: 0936102100000246 और IFSC कोड PUNB0093610 के खाते में दिनांक 28.03.2023 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड डाफ्ट के माध्यम से ईएमर्ड का भगतान करना होगा।ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, http://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध एनआरआरए की सूची सहित निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए admin@eauctions.co.in पर या परिसमापक श्री दीक्षित प्रजापति (मो: 7874138237) से संपर्क करें। ई-नीलामी **"जहाँ है जैसी है", "जैसी है जो है" और विना किसी आश्रय के आधार पर** आयोजित की जाएगी।

लेन-देन के ऑडिट का NCLT कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया

स्थान : फरीदाबाद परिसमापक आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018/10222 दिनांक : 18.03.2023

कार्यालय वसुली अधिकारी ऋण वसुली अधिकरण-I, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001

आरसी नंबर 156/18

प्राधिकृत अधिकारी

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम मैसर्स भरत कुमार बैंक और वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर

अधिनियम. 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा सीडी 1: श्री भरत कुमार, प्रोपराइटर मैसर्स बी सोनी ज्वैलर्स (कर्जदार, गिरवी कर्ता और व्यक्तिगत गारंटर), पुत्र श्री भगवानजी कांजी, निवासी 36/13,

शीर्ष तल. पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली -110008 सीडी 2: श्रीमती पारुल भरत कुमार, पत्नी श्री भरत कुमार, निवासी 36/13, शीर्ष तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली -110008

1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि स्थगन के किसी भी आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति(यों) को 28/04/2023 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच यदि आवश्यक हो तो दोपहर 01.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और यह बोली ऑनलाइन/ऑफलाइन के माध्यम से वेबसाइटः https://drt.auctiontiger.net पर होगी।

जमा धरोहर राशि (ईएमडी), आरक्षित मूल्य और निर्धारित संविदा वृद्धि निम्नलिखित है :

सम्पत्ति का विवरण	ईएमडी राशि (रु. में)	आरक्षित मूल्य (रु. में)	गुणक में संविदा वृद्धि (रु. में)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की तिथि
1. प्राइवेट नं. एस-4, एस-5, म्यूनिसिपल नं. 2523 (नया) और (पुराना), राज्य दिल्ली वार्ड नं. xvi, ब्लॉक नं7 और 8, नाईवाला एस्टेट, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में व्यावसायिक सम्पत्ति। सुपर बिल्टअप एरिया 840 वर्ग फुट।		1,47,00,000	100,000/-	निवेदन पर	28.04.2023 (12:00 बजे अप. से 1:00 बजे अप.)	26.04.2023 (5:00 बजे अप. तक)

आईकार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित प्रति के साथ किया जाएगा जिसमें भविष्य के संचार के लिए पता और पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति संलग् होनी चाहिए जो वसुली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में 26.04.2023 को शाम 5.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए।

3. इसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त जमा को सफल बोलीदाताओं के मामले में समायोजित कर लिया जायेगा। असफल बोलीदात ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही के पश्चात ई-नीलामी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीधे रजिस्टी, डीआरटी-I, दिल्ली से ईएमर्ड

4. ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक का विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि के साथ 'आरसी नंबर 156/2018' लिखा होना चाहिए। 5. संभावित बोलीदाताओं को अग्रिम में मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-ऑक्शन टाइगर, संपर्क व्यक्ति; श्री रामप्रसाद शर्मा, संपर्क नंबर 9374519754- 07961200598/554/594/587/559, ईमेल आईडी : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net support@auctiontiger.net, कॉपोरेंट कार्यालयः बी-704, वॉल स्ट्रीट-II, सामने ओरियंट क्लब निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006

गुजरात से पोर्टल के साथ खुद को पंजीकृत करने और यूजर आईडी/पासवर्ड को अग्रिम रूप से प्राप्त करना आवश्यक है, जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है। सम्बन्धित बैंक अधिकारियों/हेल्प लाइन नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है: ई-मेल तथा दूरभाष नं. नाम तथा पद

श्री बंजीत महंता	banjit.mahanta@icicibank.com, सम्पर्क- 8527193670	
ो बेचा जाना प्रस्तावित है वे ऐसे अधिकार हैं	जिनके लिए प्रमाणपत्र देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो,	
बेचा जाएगा। उदघोषणा में दिखाई गई संपर्ि	त्तेयों की सीमा रिकवरी सर्टिफिकेट शेड्यल के अनुसार है। वसली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा	

सलाह दी जाती है कि वे बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों की प्रतियों का अवलोकन करें और संपत्ति के विवरण, भार आदि की पहचान और शुद्धत की भी जांच करें। 7. बिक्री की तारीख़ से पहले संभावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसके लिए बैंक के उपरोक्त नामित अधिकारी से संपव

किसी भी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों को 'जहां है जैसी है' और 'जो कुछ है यही है' आधार पर बेचा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को

8. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने

का अधिकार सरक्षित है। 9. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी ऐसे बोलीदाताओं द्वारा डीआरटी-ककी रजिस्ट्री से, पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, सरकार और पीएसय द्वारा वैध डाइविंग लाइसेंस या जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर ग्रहण की जाएगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमर्ड

की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तरंत वसुली अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली/या बैंक से संपर्क करें। 10. बिक्री उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे अनसची में उल्लेख किया गया है और उक्त संपत्ति से जडी देनदारियां और दावे, जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे हैं जो प्रत्येक लॉट के खिलाफ अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। 11. संपत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में रखी जाएगी। यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है, तो

शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि कोई लाट बिक्री करने से पहले उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) को बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी को इस तरह के प्रमाण पत्र, ब्याज और लागत का भुगतान कर दिया गया है तो बिक्री बंद कर दी जाएगी। 12. कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य है, बेची गई संपत्ति में किसी भी हित के लिए

बोली लगाने, अर्जित करने या प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 13. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों और आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन

होगीः संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

14. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है वह रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में होगी। बोली की राशि या लॉट के संबंध में कोई विवा उत्पन्न होने की स्थिति में एक बार फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा

15. सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा लगाई गई राशि आरक्षित मुल्य से कम न हो। यह अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर होगा कि जब प्रस्तावित कीमत इतनी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है कि ऐसा करने की सलाह नहीं दी जा सकती है तो उच्चतम बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर दें।

16. सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को वसूली अधिकारी, डीआरटी-क, दिल्ली, खाता आरसी सं. 156/2018 के पक्ष में ई-नीलामी की समाप्ति के बाद अगले कार्य दिवस तक बिक्री वसुली के 25% का डीडी/पे ऑर्डर तैयार करना होगा और जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को समायोजित करने के बाद वसुली अधिकारी के कार्यालय में इस प्रकार जमा करना/भेजना होगा कि यह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर पहुंच जाए जिसमें विफल होने पर जमा

धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी। 17. सफल/उच्चतम बोलीदाता को डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के जरिए वसूली अधिकारी, डीआरटी-क, दिल्ली खाता आर.सी. नंबर 156/2018 के पक्ष में बिक्री आय का शेष 75% संपत्ति की बिक्री की तारीख़ से 15वें दिन या उससे पहले या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर 1000 रुपये तक 2% और 1000/- रुपये से अधिक की ऐसी सकल राशि पर 1% अतिरिक्त पाउंडेज शल्क रजिस्टार. डीआरटी-कके समक्ष जमा करना होगा (75% की शेष राशि डाक के माध्यम से जमा करने के मामले में उपरोक्त के अनुसार वसुली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए।) 18. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चुक के मामले में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी

उचित समझे तो बिक्री के खर्च चुकाने के बाद जमा राशि को सरकार के लिए जब्त कर लिया जा सकता है और चुककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के लिए सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

100		सम्पत्ति की अनुसूची								
	लॉट की सं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर राजस्व का आकलन	किसी अन्य ऋणभार का विवरण जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावा यदि कोई हो, जो संपत्ति के लिए आगे रखा गया है और प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञात देनदारी					
	1.	2.	3.	4.	5.					
	1.	सम्पत्ति, म्यूनिसिपल नं. 2523 (नया) और 2556 (पुराना), वार्ड नं. xvi, ब्लॉक नं7 और 8, नाईवाला एस्टेट, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में। सुपर बिल्टअप एरिया 840 वर्ग फुट।	I	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं					

नोट:- संपत्ति 'जैसी है जहां है' के आधार पर बेची जा रही है और नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले, संभावित खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति का निरीक्षण करें और इसके साथ संलग्न नीलामी के सभी सामान्य नियमों और शर्तों को ध्यान से पढें। संभावित बोलीदाताओं को उचित अवसर प्रदान करने के लिए, प्रमाणपत्र धारक बैंक से किसी भी संभावित बोलीदाताओं द्वारा नीलाम की जा रही संपत्तियों के निरीक्षण के अनुरोध पर तूरंत कार्रवाई करने की अपेक्षा की

आज दिनांक 07.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित

(राजेश कुमार) वसूली अधिकारी-I डीआरटी-I, दिल्ली

The Indian Express.

For the Indian Intelligent.